




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



म० 145]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901

No. 145]

NEW DELHI SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

प्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च 1979

का० आ० 178(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की भाग 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के समुदाय पर, 31 मार्च, 1979 में बिहार राज्य में सिधभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के सिधभूम जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1—3/77-आर० आर० बी० (i)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1979

S.O. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by Bank of India, establishes, with effect from the 31st March, 1979, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Singhbhum Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Singhbhum in the State of Bihar.

[No F 1—3/77-RRB (i)]

का० आ० 179(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सिधभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके, चाईबासा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर सिधभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[एफ० 1—3/77-आर० आर० बी० (2)]

S.O. 179(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 76 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India by which Singhbhum Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Chaibasa as the place where Singhbhum Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[F. 1—3/77-RRB (ii)]

का० आ० 180(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन० आर० एफ० के प्रयोजनों के लिये, सिधभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ० 1—3/77-आर० आर० बी० (iii)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 180(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Singhbhum Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976)

[No. F. 1—3/77-RRB (III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिवारण तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 31 मार्च, 1979

का० आ० 181(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधि-

नियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक का समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—

विपभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा

[डी०बी० आर० डी० 164/आई०एन० सी० एल०/सी० 102-79]

एम० रामकृष्णैया, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, the 31st March, 1979

S.O. 181(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Singhbhum Kshetriya Gramin Bank, Chaibasa.

[DBOD No. 164/INCL/C. 102-791

M. RAMAKRISHNAYYA, Dy. Governor